



**RELIANCE**  
**CHEMOTEX INDUSTRIES LIMITED**  
Date: May 28, 2023

To,  
**BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai 400 001

To,  
**National Stock Exchange of India Ltd.**  
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,  
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),  
Mumbai 400 051

**Scrip Code: 503162**

**Trading Symbol: RELCHEMQ**

Dear Sir/Madam,

**Sub: Intimation of Notice published in newspapers under Investor Education and Protection Fund (IEPF) Rules- Transfer of shares to IEPF**

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the following documents:

- I. Copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Jai Rajasthan (Hindi)
- II. Copy of reminder letter to the shareholders

The above reminder letters were sent to the shareholders who have not claimed their dividends for seven or more consecutive years and whose shares are liable for transfer to IEPF Authority.

This is pursuant to Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, transfer and Refund) Rules, 2016, as amended.

The above information is also available on the website of the Company [www.reliancechemotex.com](http://www.reliancechemotex.com).

This is for your information & records.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For Reliance Chemotex Industries Ltd.**

**Utkarsh Gaur**  
**Company Secretary & Compliance Officer**  
**Membership No. A60237**

*Encl: As above*



**RELIENCE CHEMOTEX INDUSTRIES LTD.**  
 Regd. Office: Village Kanpur, Post Box No.73, Udaipur, Rajasthan, 313003  
 CIN: L40102RJ1977PLC001994  
 Tel: +91 (0) 294 2491488; +91 (0) 294 2491490 | Fax: +91 (0) 294 2490067  
 E-mail: cs@reliancechemotex.com | Website: www.reliancechemotex.com

**NOTICE TO SHAREHOLDERS**  
**Transfer of Equity Shares of Reliance Chemotex Industries Ltd. ("Company") to Investor Education and Protection Fund ("IEPF")**

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016 ("IEPF Rules 2016") as amended to date, Equity Shares of the Company in respect of which dividend amount has not been paid / claimed by Shareholders for seven consecutive years or more are required to be transferred to Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). In accordance with the IEPF Rules 2016, all the underlying shares in respect of which dividend are not paid / claimed for the last 7 (seven) consecutive years, have to be transferred to the demat account of IEPF Authority.

The company has already sent Individual Notices at the latest available address of the shareholders whose dividends are lying unclaimed for last 7 (Seven) consecutive years, advising them to claim the dividend expeditiously. The details of shareholders including their Name, Folio Nos., DP ID / Client ID, etc. to whom communication has been sent along with the details of dividend pertaining to them is available on the company's website i.e. <http://www.reliancechemotex.com/reports/financial-reports/>

In this connection, please note the following:

- In case you hold Shares in physical form:** The company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original certificate(s) held by them for the purpose of conversion into DEMAT form and subsequent transfer in the DEMAT accounts opened by the IEPF authority with NSDL and CDSL. Upon such issue, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.
- In case you hold Shares in electronic form:** The transfer of shares to DEMAT account of IEPF authority as indicated herein above shall be effected by the company through the respective depositories by way of corporate action.

In case the company does not receive any communication from the concerned shareholders by 17<sup>th</sup> October 2023, the company shall, with a view of complying with the requirement set out in the IEPF Rules 2016, transfer the Equity Shares to IEPF Authority without any further notice.

Shareholders may note that shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares, if any can be claimed back from IEPF authority as per the procedures prescribed under the IEPF Rules 2016. For any clarification on this matter, shareholders may contact to Registrar and Share Transfer Agent, Big Shares Services Private Limited, S6-2, 6th Floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400093, Tel. 022-62638200/210 or Mr. Utkarsh Gaur, Company Secretary, at Village Kanpur, Udaipur 0294-2490488, email id: cs@reliancechemotex.com

For Reliance Chemotex Industries Ltd.  
 Utkarsh Gaur  
 Company Secretary & Nodal Officer  
 Membership No.: A60237

Place: Udaipur  
 Date: 27-05-2023

**THE VICTORIA MILLS LIMITED**  
 Regd. office: Victoria House, Pandurang Budhkar Marg, Lower Panel, Mumbai 400013  
 CIN: L17110MH1913PLC000357, Tel No.: 2497119293, Fax No.: 24971194  
 Email Id: vmi@2013@gmail.com, Website: www.victoriamills.in

**EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND TWELVE MONTHS ENDED 31.03.2023** (Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended	Twelve Months ended	Quarter Ended
	31/03/2023	31/03/2023	31/12/2022
	Audited	Audited	Unaudited
Total Income from operation and Other Income (Net)	2,477.68	2,605.19	39.39
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	346.89	302.73	-26.91
Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	346.89	302.73	-26.91
Net Profit / (Loss) for the period after Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	276.13	233.97	-26.91
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss and Other Comprehensive Income for the period)	158.57	314.71	57.48
Equity share Capital	98.56	98.56	98.56
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance sheet of previous year)	-	527.85	-
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	237.78	-27.30	-
a) Basic	237.78	-27.30	-
b) Diluted	237.78	-27.30	-

Note:  
 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), and on the Company website [www.victoriamills.in](http://www.victoriamills.in). The specified items of the standalone financial results of the Company are given below:

Particulars	Quarter Ended	Twelve Months ended	Quarter Ended
	31/03/2023	31/03/2023	31/12/2022
	Audited	Audited	Unaudited
Revenue from continuing operations	2,467.78	2,575.94	30.62
Profit before tax from continuing operations	337.58	277.31	-34.50
Net profit after tax from continuing operations	268.92	208.55	-34.50
Net profit after tax from discontinued operations	-	-	-
Net profit after tax from continuing operations and discontinued operations	268.92	208.55	-34.50

The above Audited Financial Results for the quarter and twelve month ended March 31st 2023 have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on May 08th 2023 and approved by the Board of Directors in its meeting held on May 26th 2023.

FOR THE VICTORIA MILLS LTD.,  
 Sd/-  
 (ADITYA MANGALDAS)  
 MANAGING DIRECTOR  
 DIN NO 00032233

Date: 26.05.2023  
 Place: Mumbai

**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**  
 भारत सरकार का उपक्रम

**Union Bank of India**  
 A Government of India Undertaking

STRESSED ASSETS MANAGEMENT BRANCH: 104, Gr. Floor, Bharat House, Mumbai Samachar Marg, Fort, Mumbai-400023, MH. • E-mail: sam@mumbai.unionbankofindia.bank

**MEGA E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE / MOVABLE PROPERTIES**

**E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable / Movable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002**

NOTICE of 15 days is hereby given to the Public in General and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged / charged to the Secured Creditor, the Constructive / POSSESSION of which has been taken by the Authorized Officer of Union Bank of India (Secured creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on the date mentioned below, for recovery of dues as mentioned hereunder to Union Bank of India from the below mentioned Borrower(s) & Guarantor(s). The Reserve Price and the Earnest Money Deposit are also mentioned hereunder :-

**\* DATE AND TIME OF E-AUCTION FOR ALL PROPERTIES : 14.06.2023 at 11.00 A. M. to 01.00 P. M. \***

**Name of the Borrower, Co-Applicant & Guarantor :- 1. M/s. Vidhya Pharmachem Pvt. Ltd. 2. Prakash Shah 3. Mrs. Usha P. Shah 4. Mukesh Jain 5. M/s. Shesha Pharmachem Pvt. Ltd. 6. M/s. DTC Food Processor Pvt. Ltd.**

**Amt. due: ₹ 40,34,45,023/-** + further interest at applicable rate, costs, dues and expenses that may accrue from 01.04.2023 till total repayment and settlement of dues by the Corporate Debtor

**Property No. 1 :-** Gala No. 14, first Floor, Building No. 14, Manish Compound, Plot No. 1, S. No. 137 (pt), 139 (pt) & 182, Near Global Warehouse, Bhiwandi Wada Road, Bhiwandi, Village : Rahaniat, Tal. Bhiwandi & Dist. Thane-421 302, Maharashtra

**• Reserve Price : ₹ 21,00,000/- • Earnest money to be deposited : ₹ 2,10,000/- • Date of Demand notice : 09.08.2014; • Date of possession notice : 18.12.2014 (Under Physical Possession)**

**Name of the Borrower, Co-Applicant & Guarantor :- 1. M/s. Vikram Iron & Steel Company Private Limited 2. Mr. Vikram Khubchandani 3. Mr. Mohan Khubchandani 4. Mrs. Rakhee Khubchandani**

**Amt. due: ₹ 25,17,29,212/-** + further interest at applicable rate, costs, dues, and expenses that may accrue from 01.04.2023 till total repayment and settlement of dues by the Corporate Debtor

**Property No. 2 :-** Factory Premises Consisting of Land bearing Gut No.141/3, Hissa No. 3 of Village Shivare alongwith Industrial / Factory sheds and other ancillary Structures on it situated Near Divi Turq Transfer System Pvt. Ltd. & Girhard Metals Co., Near Toll Station, Off Pune Satara Highway, Shivare, Taluka Bhor, District Pune-412 205, Maharashtra.

**• Reserve Price : ₹ 7,49,82,000/- • Earnest money to be deposited : ₹ 74,98,200/- • Date of Demand notice : 13.02.2014; • Date of possession notice : 30.04.2014 (Under Physical Possession)**

**Name of the Borrower, Co-Applicant & Guarantor :- 1. M/s. Gokul Sugar Industries Ltd. 2. Shri. Gokul Dattatraya Shinde 3. Mr. Siddhant Sattalingappa Mhetre 4. Shri. Kapil Balbhim Shinde 5. Smt. Suvama S. Mhetre 6. Shri. Ganpat Dattatraya Shinde 7. Sou. Usha Bhagwan Shinde 8. Shri. Shivraj Siddharam Mhetre 9. Shri. Datta Balbhim Shinde 10. Sou. Laxmi Ganpat Shinde 11. Sou. Kalpana Gokul Shinde 12. Mrs. Priiti Datta Shinde 13. Shri. Dhiraj Gokul Shinde 14. Sou. Anjanabai Dattatraya Shinde 15. Shri. Bhagwan Dattatraya Shinde.**

**Amt. due: ₹ 25,17,29,212/-** + further interest at applicable rate, costs, dues, and expenses that may accrue from 01.04.2023 till total repayment and settlement of dues by the Corporate Debtor

**Property No. 3 :-** Flat No. D-1 (1<sup>st</sup> Floor), Vidhya Vihar Apartment, City Survey No. 8391/15, Sub Plot No. 4, Layout No. 2, at Railway Line, Near Bank of India, Old Employment Chowk, Solapur, Tal. North Solapur, Dist. Solapur-413 007, Maharashtra owned by Balbhim D. Shinde • Built Up : 828 sq. ft.

**• Reserve Price : ₹ 40,58,000/- • Earnest money to be deposited : ₹ 4,05,800/-**

**Property No. 4 :-** Flat No. D-5 (2<sup>nd</sup> Floor), Vidhya Vihar Apartment, City Survey No. 8391/15, Sub Plot No. 4, Layout No. 2, at Railway Line, Near Bank of India, Old Employment Chowk, Solapur, Tal. North Solapur, Dist. Solapur-413 007, Maharashtra owned by Priti Datta Shinde • Built Up : 828 sq. ft.

**• Reserve Price : ₹ 40,58,000/- • Earnest money to be deposited : ₹ 4,05,800/-**

**Property No. 5 :-** Flat No. D-6 (2<sup>nd</sup> Floor), Vidhya Vihar Apartment, City Survey No. 8391/15, Sub Plot No. 4, Layout No. 2, at Railway Line, Near Bank of India, Old Employment Chowk, Solapur, Tal. North Solapur, Dist. Solapur-413 007, Maharashtra owned by Datta Balbhim Shinde • Built Up : 828 sq. ft.

**• Reserve Price : ₹ 40,58,000/- • Earnest money to be deposited : ₹ 4,05,800/-**

**Property No. 6 :-** Flat No. D-7 (2<sup>nd</sup> Floor), Vidhya Vihar Apartment, City Survey No. 8391/15, Sub Plot No. 4, Layout No. 2, at Railway Line, Near Bank of India, Old Employment Chowk, Solapur, Tal. North Solapur, Dist. Solapur-413 007, Maharashtra owned by Datta Balbhim Shinde • Built Up : 828 sq. ft.

**• Reserve Price : ₹ 40,58,000/- • Earnest money to be deposited : ₹ 4,05,800/-**

**Property No. 7 :-** Flat No. D-10 (3<sup>rd</sup> Floor), Vidhya Vihar Apartment, City Survey No. 8391/15, Sub Plot No. 4, Layout No. 2, at Railway Line, Near Bank of India, Old Employment Chowk, Solapur, Tal. North Solapur, Dist. Solapur-413 007, Maharashtra owned by Gokul D. Shinde • Built Up : 828 sq. ft.

**• Reserve Price : ₹ 40,58,000/- • Earnest money to be deposited : ₹ 4,05,800/-**

**Property No. 8 :-** Flat No. D-11 (3<sup>rd</sup> Floor), Vidhya Vihar Apartment, City Survey No. 8391/15, Sub Plot No. 4, Layout No. 2, at Railway Line, Near Bank of India, Old Employment Chowk, Solapur, Tal. North Solapur, Dist. Solapur-413 007, Maharashtra owned by Ganpat D. Shinde • Built Up : 828 sq. ft.

**• Reserve Price : ₹ 40,58,000/- • Earnest money to be deposited : ₹ 4,05,800/-**

**Property No. 9 :-** Flat No. 1, 2<sup>nd</sup> floor, Monalisa Chambers, City Survey No. 8317 A/2, Village Murari Peth, Near Ajinkya Hotel and City Corner, Killa Road, Solapur, Tal. North Solapur, Dist. Solapur-413 004, Maharashtra owned by Kapil B. Shinde • Built Up : 763 sq. ft.

**• Reserve Price : ₹ 76,30,000/- • Earnest money to be deposited : ₹ 7,63,000/-**

**Property No. 10 :-** Flat No. 2, 2<sup>nd</sup> floor, Monalisa Chambers, City Survey No. 8317 A/2, Village Murari Peth, Near Ajinkya Hotel and City Corner, Killa Road, Solapur, Tal. North Solapur, Dist. Solapur-413 004, Maharashtra owned by Dhiraj Gokul Shinde • Built Up : 688 sq. ft.

**• Reserve Price : ₹ 68,80,000/- • Earnest money to be deposited : ₹ 6,88,000/-**

**Property No. 03 to 10 :-** • Date of Demand Notice : 21.09.2019 • Date of Possession Notice : 23.12.2019 (Under Symbolic Possession)

**INLAND PRINTERS LTD.**  
 Reg. Off.: 800, Sangita Ellipse, Sahakar Road, Vile Parle (East), Mumbai - 400057  
 Tel.: (022)-40482500 | Email: inlandprintersld@gmail.com  
 CIN: L99999MH1978PLC020739 | Website: www.inlandprinters.in

**EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023** (Amt. in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		Audited	Audited	Audited	Audited
1.	Total Income from operation (Net)	-	-	-	-
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(11.17)	(4.97)	(21.95)	(22.15)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(11.17)	(4.97)	(21.95)	(22.15)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(11.24)	(4.32)	(22.02)	(21.50)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(11.24)	(4.32)	(22.02)	(21.50)
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	10/-	10/-	10/-	10/-
7.	Reserves (Excluding Revaluation Reserves)	-	-	(261.91)	(239.90)
8.	Earnings Per Share (EPS)				
a)	Basic and diluted EPS (before Extraordinary items) (of Rs. 10 each)	(0.23)	(0.09)	(0.45)	(0.68)
b)	Basic and diluted EPS (after Extraordinary items) (of Rs. 10 each)	(0.23)	(0.09)	(0.45)	(0.68)

Notes:  
 1) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective meetings held on 27th May 2023  
 2) Figures of the previous periods have been regrouped, wherever necessary, to correspond with the figures of the current period.  
 3) During the quarter ended December 31, 2021, the Company raised additional equity capital on October 14, 2021 through a Preferential Allotment of 35 lakh shares at a price of Rs.10 per share. As a consequence, the paid-up share capital of the Company has increased by Rs. 350 lakhs. The Earning per share for previous periods have also been adjusted, wherever required, in accordance with Ind AS 33-Earnings Per Share  
 4) The Board of Directors of the Company (the Transferee Company) in their meeting held on 9th March, 2023, had approved the scheme of Amalgamation under section 230 to 232 of the Companies Act, 2013 with Parthiv Corporate Advisory Private Limited (the Transferor Company). The said scheme is subject to the approval of the BSE and National Company Law Tribunal, Mumbai and other requisite approvals. Pending receipt of necessary approvals,  
 5) The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the stock exchange website - [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on Company's Website - [www.inlandprinters.in](http://www.inlandprinters.in)

By order of the Board  
 For Inland Printers Limited  
 Sd/-  
 Kishor Sorap  
 Wholetime Director  
 DIN: 08194840

Place : Mumbai  
 Date : 27.05.2023

**ASHAPURA INTIMATES FASHION LIMITED (IN LIQUIDATION)**  
 CIN: L17299MH2006PLC163133  
 Reg Office: Shop No 3-4 Ground Floor, Pacific Plaza Plot No 507 TPS IV Off B. S. Road Mahim Division Dadar-W Mumbai MH 400028

**CORRIGENDUM**  
 Please refer to our Public Announcement / Sale Notice Under IBC, 2016 published in this newspaper on 26.05.2023 in this notice Asset category 1: Land and Building at Dadar on as is where is basis (Unit No. 1, Ground Flr, Pacific Plaza, Garage Gali, Dadar (West) - 2700 sq ft. was wrongly published please read Asset category 1: Land and Building at Dadar on as is where is basis (Unit No. 1, Ground Flr, Pacific Plaza, Garage Gali, Dadar (West) - 255sq ft. Other details will remain the same.

Sd/-  
 Bhavesh Rathod  
 Liquidator of Ashapura Intimates Fashion Limited

**CENTRAL RAILWAY**  
**MODIFICATION OF 18 NOS. OVERAGED LIFTS TO ENERGY EFFICIENT DRIVE**  
**OPEN E-BID NOTICE NO. 15/2023 BB.LG.W.DR.2023.01**  
 For and on behalf of The President of India invites Open E-Tender through website [www.reps.gov.in](http://www.reps.gov.in) from reputed contractors. Name of Work: Modification of 18 nos. overaged lifts due to obsolete technology by energy efficient VVVF drive. (Tender Notice No.15/2023 BB.LG.W.DR.2023.01)

Approximate Cost of the Work: ₹ 2,14,27,713.50/- • Bid Security: ₹ 2,57,100/- • Validity: 60 days, Completion Maintenance Period: 6 Months (C). Instructions: 1. Tender Closing Date & Time: of aforesaid tender. Upto 13:00 hours of 14.06.2023 and will be opened after 13:00 hrs. 2. The prospective tenderers are requested to visit our website [www.reps.gov.in](http://www.reps.gov.in) for complete details of tenders and corrigendum, if any. 3. Tenderer may participate in above e-tender electronically through website [www.reps.gov.in](http://www.reps.gov.in) only & submission of manual offers against e-tender are not allowed. Manually, if submitted, shall neither be opened nor considered. 4. For further enquiry may contact to Senior Divisional Electrical Engineer (General Service), Annex Bldg., 1st Floor, Central Railway, CSMT Mumbai. 5. This tender complies with Public Procurement Policy Order 2017, dated 15.06.2017.

162  
 RailMadad Helpline 139

**hgs**  
**HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS LIMITED**  
 (CIN: L92199MH1995PLC084610)  
 Regd. Office: Hinduja House, 171, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018.  
 Contact nos.: 022 - 2496 0707; Website: [www.teamhgs.com](http://www.teamhgs.com); E-mail: [investor.relations@teamhgs.com](mailto:investor.relations@teamhgs.com)

**EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023** (₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	3 months ended	Preceding 3 months ended	Corresponding 3 months ended	For the Current year ended	Previous year ended
		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
		Audited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
	(Refer Notes Below)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	Total income from operations (both continuing and discontinued operations)	116,823.12	116,464.09	789,502.46	513,675.16	1,368,939.07
2	Net Profit / (Loss) for the period / year before tax (after Exceptional Items)	(268.46)	474.16	658,041.57	20,623.14	700,762.47
3	Net Profit / (Loss) for the period / year after tax (after Exceptional items)	2,577.16	5,184.44	573,309.00	35,078.44	606,143.52
4	Total Comprehensive Income for the period / year [Comprising Profit / (Loss) for the period / year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1,154.73)	27,779.93	586,078.14	66,007.58	613,350.80
5	Equity Share Capital	5,252.03	5,252.03	4,179.51	5,252.03	4,179.51
6	Reserves excluding Revaluation Reserve as per Balance Sheet	-	-	-	-	822,972.63
7	Earnings Per Share for the period / year (of ₹ 10/- each) (both continuing and discontinued operations)					
	Basic EPS (for the period - not annualised)	4.87	9.87	1,092.57	66.79	1,155.14
	Diluted EPS (for the period - not annualised)	4.87	9.87	1,091.64	66.79	1,154.18

Notes:  
 1. The Board of Directors at their meeting held on May 26, 2023 has recommended final dividend of ₹ 2.50 per share (on an equity share of par value of ₹ 10/- each) for the financial year 2022-23.  
 2. The above is an extract of the detailed format of the Consolidated Financial Results for the Quarter and year ended March 31, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2023 are available on the Stock Exchange websites: [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and Company's website [www.teamhgs.com](http://www.teamhgs.com).

For Hinduja Global Solutions Limited  
 Partha DeSarkar  
 Executive Director  
 DIN: 00761144

Place : London  
 Date : May 26, 2023  
 Financialexp.paprr.in

**Name of the Borrower, Co-Applicant & Guarantor :- 1. M/s. Speciality Polymers Pvt. Ltd. 2. Mr. S. Shanthusharma Sharma 3. Mr. Padmabha Sundaram Sharma 4. Meena P. Sharma**

**Amt. due: ₹ 86,05,90,596.31** + further interest thereon and other charges Under Consortium Arrangement.

**Property No. 21 :-** Basement No. 1, Nisarg Apartment, C. T. S. No. 1234, 1234/1 to 4, Village : Villeparle, Near Villeparle Railway Station, Besant Road, Vile Parle West, Tal. Andheri, Dist. Mumbai-400 057, Maharashtra.

**• Reserve Price : ₹ 2,20,00,000/- • Earnest money to be deposited : ₹ 22,00,000/- • Date of Demand notice : 02.05.2016; • Date of possession notice : 20.02.2020 (Under Physical Possession)**

**Name of the Borrower, Co-Applicant & Guarantor :- 1. M/s. Navrang Apartment, Wing 'B' Behind S.I.A.H. School, Kopar Road, Dombivli (W) - 421202 Dist. Thane. (507 sq. feet Built up area)**

**• Reserve Price : ₹ 46,55,000/- • Earnest money to be deposited : ₹ 4,65,500/- • Date of Demand notice : 14.12.2016; • Date of possession notice : 16.03.2017 (Under Symbolic Possession)**

**Property No. 23 :-** Flat No. A/1, on the Ground Floor, In the Building known as "Navrang Apartment", Wing A, Behind S. I. A. H. School, Kopar Road, Dombivli (West) - 421202 Dist. Thane. (554 S. feet Carpet Area)

**• Reserve Price : ₹ 61,00,000/- • Earnest money to be deposited : ₹ 6,10,000/- • Date of Demand notice : 14.12.2016; • Date of possession notice : 16.03.2017 (Under Symbolic Possession)**

**Name of the Borrower, Co-Applicant & Guarantor :- 1. M/s. Oshya Industries Ltd 2. M/s. Oshya Industries Pvt Ltd 3. Mr. Vijendra Ranka 4. Mr. Satish Kumar Ranka 5. Mr. Yogesh Saraswate S/o. Shashikant Saraswate 6. M/s. Oshya Strips Impex Pvt Ltd 7. Mr. Milankumar Ranka (Director) M/s. Oshya Strips Impex Pvt. Ltd. 8. Mr. Milankumar Ranka (Director) M/s. Oshya Strips Impex. Pvt. Ltd.**

**Amt. due: ₹ 58,27,59,141.56** as on 30.04.2023 plus further interest thereon w. e. 1.01.05.2023 at applicable rate of interest, cost and charges till date.

**Property No. 24 :-** Commercial premises bearing Office No. 320, 3<sup>rd</sup> Floor, E Wing, Aurora Towers Premises Co-op. Society Ltd., 9, Molekina Road, Pune-411 001, Maharashtra Admeasuring 647 Sq. ft. Built up area and 591 Sq. ft. Carpet area in the name of Mr. Vijendra Ranke

**• Reserve Price : ₹ 79,00,000/- • Earnest money to be deposited : ₹ 7,90,000/- • Date of Demand notice : 10.01.2015; • Date of possession notice : 27.03.2015 (Under Symbolic Possession)**

**Name of the Borrower, Co-Applicant & Guarantor :- 1. M/s. Devin Exim Pvt. Ltd. 2. Mrs. Geeta Bharat Kewlani 3. Mr. Devin Bharat Kewlani**

**Amt. due: ₹ 49,95,99,198/-** as on 31.03.2023 + Plus, further interest at applicable rate, costs, dues, and expenses that may accrue from 31.03.2021 till total repayment and settlement of dues by the Corporate Debtor

**Property No. 25 :-** Residential Flat No. 8, 3<sup>rd</sup> floor, Bldg No. 15, "Shri Rama Krishna Co-Op. Hsg. Soc. Ltd." Plot No. 34, North South Road No. 9, Gulmohar Cross Road No. 12, JVPD Scheme, Juhu, Andheri (West), Mumbai, Maharashtra admeasuring built up area 822 sq. ft. BUA plus 125 sq. ft. open terrace area in the name of Mrs. Geeta Bharat Kewlani

**• Reserve Price : ₹ 3,10,92,000/- • Earnest money to be deposited : ₹ 31,09,200/- • Date of Demand notice : 03.07.2021; • Date of possession notice : 16.10.2021 (Under Symbolic Possession)**

**Property No. 26 :-** Residential Flat No. 7, 3<sup>rd</sup> floor, Bldg No. 15, "Shri Rama Krishna Co-Op. Hsg. Soc. Ltd." Plot No. 34, North South Road No. 9, Gulmohar Cross Road No. 12, JVPD Scheme, Juhu, Andheri, (West), Mumbai, Maharashtra admeasuring built up area 960 sq. ft. in the name of Mr. Devin Bharat Kewlani

**• Reserve Price : ₹ 3,45,60,000/- • Earnest money to be deposited : ₹ 34,56,000 • Date of Demand notice : 03.07.2021; • Date of possession notice : 16.10.2021 (Under Symbolic Possession)**

**DATE & TIME OF E-AUCTION FOR ALL PROPERTIES : 14.06.2023 at 11.00 a.m. to 01.00 p.m.**

**DATE OF INSPECTION OF ALL THE PROPERTIES ON 13.06.2023 (With Prior Appointment)**

For Registration & Login & Bidding Rules visit  
<https://www.msstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp>

For Further Details Contact :  
**\* Mrs. Sadhana Sanap, Chief Manager, Mob. No. 97691 97822 (During office Hours)**

Date : 27.05.2023  
 Place : Mumbai  
 Authorised Officer,  
 Union Bank of India









# Reliance Chemotex Industries Ltd.

Registered Office: Village Kanpur, Post Box No.73, Udaipur, Rajasthan, 313003

CIN: L40102RJ1977PLC001994

Tel: +91 (0) 294 2491489 ; +91 (0) 294 2491490 | Fax: +91 (0) 294 2490067

E-mail: [cs@reliancechemotex.com](mailto:cs@reliancechemotex.com) | Website: [www.reliancechemotex.com](http://www.reliancechemotex.com)

REF: BSS/RELIANCE/IEPFSHARES/

Date:

Name of the Member:

Ref.: Folio No./DPID/ Client ID:

Dear Member(s),

**Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)**

As you are aware, the dividend declared by the Company is remitted either electronically or by sending dividend warrants to the registered address of the eligible shareholders.

As per Section 124 (5) of the Companies Act, 2013, all unpaid or unclaimed dividends for a period of seven years are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government. We regularly upload on our website as also on the website of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, full details of such unpaid or unclaimed dividends before transferring to IEPF.

Further, Section 124 (6) requires that all shares in respect of which unpaid or unclaimed dividend has been transferred to IEPF, shall also be transferred to IEPF. Ministry of Corporate Affairs has notified Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 [Rules] which have come into force from September 7, 2016. The said Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares in respect of which Dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, in the name of IEPF.

As per the records, you have not en-cashed your dividends for seven continuous years and accordingly, in terms of the above Rules, your shares are liable to be transferred to IEPF. You are requested to immediately claim your unpaid dividends and avoid the transfer of your shares to IEPF by sending following documents to us or to Bigshare Services Private Limited., Registrar and Transfer Agents (RTA) of the Company at the address mentioned in this letter, before 17/10/2023.

As per the above mentioned rules, shares held in physical form are liable to be transferred to IEPF, by issuing duplicate share certificates and upon issue of such duplicate share certificates, the original share certificate(s) which stand registered in your name will be deemed cancelled and non-negotiable. In case the shares are held in demat form and are liable to be transferred to IEPF, the Company will give Delivery Instruction Slip to the Depository for the transfer of shares to IEPF.

However, you can claim from IEPF Authority both unclaimed dividend amount and the shares transferred to IEPF by making an application in Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the same duly signed (as per the registered specimen signature) along with requisite documents enumerated in the said Form IEPF-5 to the Company at its Registered Office or to Bigshare Services Private Limited, RTA of the Company for verification of your claim. We shall send a verification report to IEPF Authority for a refund of the unclaimed dividend amount and transfer of the shares back to the credit of the shareholder.

In case we do not hear anything from you on this intimation letter before 17/10/2023, we shall, with a view to complying with the requirements of the said Rules, transfer the shares to IEPF as per the procedure stipulated in the Rules, without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Authority pursuant to the said Rules.

Please feel free to contact the Company/Bigshare Services Private Limited in case you have any queries at the following address / email / telephone number:

**Reliance Chemotex Industries Ltd.**

Regd. Off: Village Kanpur, Post Box No.73, Udaipur, Rajasthan, 313003  
Phone: +91 (0) 294 2491489 ; +91 (0) 294 2491490 | Fax: +91 (0) 294 2490067  
Email: [cs@reliancechemotex.com](mailto:cs@reliancechemotex.com), Website: [www.reliancechemotex.com](http://www.reliancechemotex.com)

**Bigshare Services Private Limited**

Office No S6-2 | 6th floor, Pinnacle Business Park |  
Next to Ahura Centre| Mahakali Caves Road |  
Andheri (East) |Mumbai - 400093| India  
Mumbai 400059,  
Board No. : 022-6263 8200 Direct No: 022-62638205/7045454396  
Email - [investor@bigshareonline.com](mailto:investor@bigshareonline.com)

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Reliance Chemotex Industries Ltd.

Sd/-  
Utkarsh Gaur  
Company Secretary & Nodal Officer